



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 वैशाख 1937 (श०)
(सं० पटना 559) पटना, सोमवार, 11 मई 2015

पंचायती राज विभाग

अधिसूचनाएं
5 मई 2015

सं० 8५0/वि०-5-132/2014/2516—बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 94(2) सहपठित धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली, 2007 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2015

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।— (1) यह नियमावली बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2015 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह अधिसूचना के निर्गमन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली, 2007 के नियम 8 के उप नियम (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

“(1) न्यायमित्रों को नियत फीस के आधार पर नियोजित किया जायेगा और उन्हें ₹7,000/— (सात हजार रुपये) मात्र प्रतिमाह देय होगा।”

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 5th May 2015

No. 8Pa/Vi-5-132/2014/2516—In exercise of the powers conferred by Section 94(2) read with Section 146 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Gram Katchahary Nyaymitra (Appointment, Service Conditions and Duties) Rules, 2007:-

Bihar Gram Katchahary Nyaymitra (Appointment, Service Conditions and Duties) (Amendment) Rules, 2015

1.Short Title, Extent and Comencement - (1) These Rules may be called the Bihar Gram Katchahary Nyaymitra (Appointment, Service Conditions and Duties) (Amendment) Rules, 2015.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of issue of notification.

2. Sub rule (1) of Rule 8 of the Bihar Gram Katchahary Nyaymitra (Appointment, Service Conditions and Duties) Rules, 2007 shall be substituted by the following:-

"Nyaya Mitra will be employed on fixed fees and they will be paid ₹7,000/- (Rupees Seven thousand) for a month."

By order of the Governor of Bihar,

Sd/-Illegible,

Principal Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 559-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>